

प्रेषक,

विकास सिंह,
अपर सिविल जज (जू0डि0),
न्यायालय संख्या-4, वाराणसी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 9734 /iv-3830 /Admin (A) /
दिनांकित 03.06.2011 के अनुपालन में चल एवं अचल सम्पत्ति के विवरण
के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 19.12.2009 को योगदान करते समय माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र संख्या 16 / iv-h-16 /Admin (A), दिनांकित 13.05.2004 का ज्ञान न होने के कारण एवं प्रशिक्षण में व्यस्त होने के कारण मैं अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका था। उपरोक्त प्रपत्र एवं उक्त से सम्बन्धित प्रपत्रों की जानकारी होने पर मैंने श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, वाराणसी के पत्र संख्या 246 /I दिनांकित 28.02.2011 के द्वारा अपने पास दिनांक 19.12.2009 को उपलब्ध अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया है। उक्त विवरण में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में योगदान प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 19.12.2009 को अपने द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण ही प्रेषित किया है।

सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त विवरण दिनांकित 28.02.2011 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचारण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित हैं।

'सादर'

दिनांक-15.06.2011

भवदीय,

Vikas Singh
15-06-2011

(विकास सिंह)

अपर सिविल जज (जू0डि0),
न्यायालय संख्या-4, वाराणसी।

संलग्नक:-
उपरोक्तानुसार।

Office of the District Judge Varanasi
No. 772/7 Date 15-06-11
Forwarded.

[Signature]
District Judge
Varanasi